

उत्तराखण्ड शासन
नागरिक उड्डयन विभाग
संख्या- /2018-171/IX/2007
देहरादून दिनांक 12 मार्च, 2018
कार्यालय ज्ञाप

विधान सभा के प्रथम सत्र 2018 के लिए विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-109/XXXVI(3)/2018/09(3)/2007 एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-110/नि0स0-मु0स0/2018 दिनांक 21 फरवरी, 2018 क्रम में नागरिक उड्डयन विभाग हेतु निम्नवत् अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है-

क्र0स0	नाम एवं पदनाम	दूरभाष न0
1.	श्री चिरंजी लाल, अनुसचिव, नागरिक उड्डयन विभाग उत्तराखण्ड शासन।	9927699157
2.	श्री के0संतोष कुमार, वरिष्ठ वायुयान अनुरक्षण अभियन्ता, नागरिक उड्डयन निदेशालय जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट, देहरादून।	9411382215

2- निर्देशित किया जाता है कि उक्त नोडल अधिकारी दिनांक 20 मार्च, 2018 से होने वाले विधान सभा सत्र, 2018 के लिए प्रातः 9.30 बजे विधानसभा भवन भराड़ीसैण, गैरसैण, जनपद चमोली स्थित विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग में श्री आर0पी0पन्त, विशेष कार्याधिकारी एवं श्री सत्य प्रकाश, अनुभाग अधिकारी से सम्पर्क कर विधान भवन भराड़ीसैण, गैरसैण, में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सूचनायें प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

/ (ओम प्रकाश)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 187/2018-171/IX/2007 तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/अपर सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त दोनों नोडल अधिकारियों को विधान सभा पास निर्गत किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. निजी सचिव, सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड शासन/जिलाधिकारी, चमोली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त दोनों नोडल अधिकारियों हेतु आवास आदि की व्यवस्था कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बूकाडा को इस आशय से प्रेषित कि सत्र अवधि हेतु एक राजकीय वाहन ड्राइवर सहित नामित नोडल अधिकारियों के साथ सम्बद्ध करने का कष्ट करें।
8. सम्बन्धित अधिकारीगण।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(गिरीश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।